



R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

Corporate Identity Number : L74899DL1993PLC053579
[CMMI Level 5, PCMM Level 5, ISO 9001:2008 & ISO 27001:2005 Company]
C-40, Sector-59, NOIDA, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P., India – 201 307

Phones: +91-120-4303500
Fax: +91-120-4082699

Email :rsil@rsystems.com
www.rsystems.com

Regd. Off.: GF-1-A, 6, Devika Tower,
Nehru Place, New Delhi- 110019

OCTOBER 20, 2021

To, The Managing Director National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra – East, Mumbai – 400 051 NSE Symbol – RSYSTEMS	To, The General Manager BSE Limited Department of Corporate Services, Rotunda Building, 1 st Floor, Mumbai Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 001 BSE Scrip Code - 532735
---	---

Dear Sir,

SUB: NEWSPAPER ADVERTISEMENT – NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR TRANSFER OF EQUITY SHARES TO THE DEMAT ACCOUNT OF INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND AUTHORITY

This is with reference to the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the “Listing Regulations”). We are enclosing a copy of newspaper advertisement of Notice to Shareholders for transfer of equity shares to the Demat Account of Investor Education and Protection Fund Authority published in Business Standard (English) and Business Standard (Hindi) all edition on October 19, 2021.

This is for your information and record.

Thanking you.

Thanking You,
For **R Systems International Limited**

Bhasker Dubey
(Company Secretary & Compliance Officer)





R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

[Corporate Identity Number : L74899DL1993PLC053579]

Registered Office : GF-1-A, 6, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi- 110019
Corporate Office : C-40, Sector 59, NOIDA, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P., India - 201 307
Tel : +91 120 4303500; Fax : +91 120 4082699
Website : www.rsystems.com; Email : rsil@rsystems.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

For Transfer of equity shares to the Demat Account of Investor Education and Protection Fund Authority

In terms of Requirements of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the "Rules"), the Company is mandated to transfer such shares in respect of which the dividend has remained unpaid or unclaimed for a period seven consecutive years to the Demat account ("IEPF Account") as may be opened by the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority").

It is noticed from the records that certain shareholders of the Company have not encashed their dividends for seven consecutive years since the declaration of Fourth Interim (Special) Dividend for the financial year ended December 31, 2014 and onwards.

In compliance with the said Rules, the Company has sent the individual communication to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Account for taking appropriate action and submitting requisite documents to claim the unclaimed dividend amount(s). A list of such shareholders, who have not encashed their dividends for seven consecutive years and whose shares are therefore liable for transfer to the IEPF Account, is available on the website of the Company at <https://www.rsystems.com/investors-info/unpaid-and-unclaimed-dividend/>.

The Shareholders are requested to refer to the above web-link to verify the details of unencashed dividends and the shares liable to be transferred to the IEPF Account. Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to the IEPF Fund/ IEPF Account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure as prescribed in Rules.

In case of non-receipt of valid claim by the shareholder for the Fourth Interim (Special) Dividend 2014 by January 19, 2022 at any one of the below mentioned addresses, the Company shall, in compliance with the requirement of the Rules, transfer the said shares to IEPF account without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Registrar and Transfer Agent and/ Company at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd,
Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1, Block LSC, Near
Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058
Tel: +91 11 4141 0592, Fax: +91 11 4141 0591
Email: delhi@linkintime.co.in

R Systems International Limited
C-40, Sector-59, NOIDA-201307
Tel: +91-120-4303500
Fax: +91-120-4082699
Email: investors@rsystems.com

For R Systems International Limited
Sd/-

Date : 18.10.2021
Place : Noida, (U.P.)

Bhasker Dubey
(Company Secretary & Compliance Officer)



आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

(कारपोरेट पहचान संख्या: L74899DL1993PLG053579)

पंजीकृत कार्यालय : जीएफ 1-ए, 6, देविका टॉवर, नहरू प्लेस नई दिल्ली - 110 019
कारपोरेट कार्यालय : सी-40, सेक्टर 59, नौयडा, जिला गौतम बुध नगर, उ०प्र०, इण्डिया - 201 307
दूरभाष : +91 120 4303500; फ़ैक्स : +91 120 4082699
वेबसाइट : www.rsystems.com; ईमेल : rsil@rsystems.com

शेयरधारकों हेतु सूचना

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के डीमैट खाते में इक्विटी शेयरों के स्थानांतरण के लिए

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 124 साथ में पठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियमन, 2016 ("नियमन") के प्रावधानों के अंतर्गत उन शेयरों जिनके लाभांश का भुगतान अथवा दावा लगातार सात वर्षों से नहीं किया गया है, कम्पनी को ऐसे शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण ("आईपीएफ प्राधिकरण") द्वारा खोले गये डीमैट खाते ("आईपीएफ खाता") में हस्तांतरित करना है।

कम्पनी के रिकॉर्ड से ज्ञात हुआ है कि कुछ शेयरधारकों द्वारा दिसम्बर 31, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के चौथे अंतरिम ((विशेष) लाभांश एवं उपरान्तर लाभांश लगातार सात वर्षों से नहीं भुनाये गये हैं।

उपरोक्त नियमन के अनुसार कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों, जिनके शेयर आईपीएफ खाते में हस्तांतरण के योग्य हैं, उन्हें व्यक्तिगत सूचना भेजी है, ताकि उपयुक्त दावा किया जा सके और लाभांश राशि के दावे के लिए अपेक्षित दस्तावेज जमा किये जा सकें। ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश लगातार सात वर्षों से नहीं भुनाये हैं एवं जिनके शेयर आईपीएफ खाते में हस्तांतरण योग्य हैं, उनकी एक सूची कम्पनी की वेबसाइट <https://www.rsystems.com/investors-info/unpaid-and-unclaimed-dividend/> पर उपलब्ध हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि बेदावा लाभांश और शेयर्स, दोनों जो आईपीएफ खाते में हस्तांतरित होने योग्य हैं, के विवरण के सत्यापन के लिए उपरोक्त वेब-लिंक का संदर्भ लें। शेयरधारक ध्यान दें कि बेदावा लाभांश और शेयर्स, दोनों जो आईपीएफ कोष/आईपीएफ खाते में हस्तांतरित किए गये हैं, इस तरह के शेयरों पर एकत्रित सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, वे नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण से वापस दावा किए जा सकते हैं।

शेयरधारकों से वित्तीय वर्ष 2014 के चौथे अंतरिम (विशेष) लाभांश के लिए जनवरी 19, 2022 तक किसी भी नीचे दिये गये एक पते पर वैध दावे के प्राप्त न होने पर कम्पनी उपरोक्त नियमों के अनुपालन में उपरोक्त शेयरों को बिना किसी पुनः सूचना के आईपीएफ खाते में हस्तांतरित कर देगी।

कृपया ध्यान दें कि बिना दावा वाले लाभांश राशि एवं शेयरों के आईपीएफ कोष/आईपीएफ खाते में हस्तांतरित होने पर, उपरोक्त नियमन के अनुसरण में कम्पनी के खिलाफ कोई दावा नहीं रहेगा।

शेयरधारक इस विषय में किसी भी पूछताछ के लिए रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट/कम्पनी के निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं।

लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
नोबल हाईट्स, प्रथम मंजिल, प्लॉट न० एनएच-2, सी-1 ब्लॉक,
एलएससी, सावित्री मार्केट के नजदीक, जनकपुरी
नई दिल्ली - 110 058
Tel : +91 11 4141 0592, Fax: +91 11 4141 0591
Email: delhi@linkintime.co.in

आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड
सी-40, सेक्टर-59, नौयडा-201 307
Tel: +91-120-4303500
Fax: +91-120-4082699
Email: investors@rsystems.com

दिनांक : 18.10.2021
स्थान : नौयडा (उ०प्र०)

कृते आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड
हता०/-
भारकर दुबे
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)